

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, 2021 में वर्चुअल तौर पर दुबारा हो रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 जुलाई, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम (Nurturing Neighbourhoods Program), बुधवार, 7 जुलाई, 2021 को शुरू हो रहा है। इस वर्ष दुबारा, स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने के लिए, प्रोग्राम ऑनलाइन किया जाएगा।

नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम का उद्देश्य, नागरिकों की भागीदारी को बेहतर बनाना, निवासियों को अपने नेबरहुड को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना और उन्हें संसाधनों से जोड़ना है। निवासियों के लिए अपने नेबरहुड के बारे में अधिक जानने और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसे ऑनलाइन साझा करने के लिए तीन नए तरीके होंगे:

- वर्चुअल (आभासी) वॉक्स – 15 पहले से रिकॉर्ड किए गए टूर, नियत तारीखों को सिटी की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन टूरों में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लें या शारीरिक दूरी कायम रखते हुए, व्यक्तिगत रूप से अकेले इन टूरों में हिस्सा लेने के लिए, प्रदान किए गए टूल्स का उपयोग करें।
- नेबरहुड सर्वेक्षण – सिटी, कम्युनिटी के नेबरहुड्स को समझना चाहती है और यह जानना चाहती है कि निवासी उनके अंदर आपसी व्यवहार कैसे करते हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण में हिस्सा लें।
- ऑनलाइन मैपिंग टूल – एक ऑनलाइन मैपिंग टूल के साथ, निवासी अपनी पसंदीदा जगहों, चिंताओं और बदलावों को पहचान पाएंगे, जो वे पूरे शहर में देखना चाहते हैं।

नरचरिंग नेबरहुड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आभासी नेबरहुड वॉक्स की पूरी सूची के लिए, www.brampton.ca/neighbourhoods पर जाएं।

2020 का प्रोग्राम

पिछले वर्ष, सिटी ने ब्रैम्पटन के निवासियों को शामिल करने और सिविक कम्युनिटी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, पूरे ब्रैम्पटन में 15 नेबरहुड्स के वर्चुअल टूर किए थे। 400 से अधिक निवासियों ने, 2020 में नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम के द्वारा अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिटी को 400 से अधिक सर्वेक्षण जवाब मिले थे और 400 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन मैपिंग टूल (Online Mapping Tool) पिन किया था। 2020 के नतीजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/neighbourhoods पर जाएं।

हवाले

“हमारे निवासी विशेषज्ञ होते हैं, जब उनके नेबरहुड्स की बात आती है, जिसे वे घर कहते हैं। अपनी कम्युनिटी के बारे में उन्हें क्या पसंद है और वे किस चीज़ में बदलाव चाहते हैं, इस बारे में उनके सुझाव बहुमूल्य हैं। पिछले वर्ष के नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी निवासियों का धन्यवाद। मैं इस वर्ष के 15 नेबरहुड्स के निवासियों को शामिल होने की सलाह देता हूँ। आपकी राय महत्वपूर्ण है और आप हमारे शहर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जब प्रांत ने धीरे-धीरे शहर को दुबारा खोलना जारी रखा है और हम कोविड-19 महामारी से बहाली की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारी कम्युनिटी का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। निवासियों को इस वर्ष के नरचरिंग नेबरहुड्स क्षेत्रों का वर्चुअल टूर करने और हमारे लोकल नेबरहुड्स के बारे में ऑनलाइन अपने सुझाव प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं और आप स्थिर और संपूर्ण कम्युनिटी बनाने में हमारी मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“नरचरिंग नेबरहुड्स निवासियों के इस बारे में सुझाव साझा करने का अवसर प्रदान करता है कि जिस जगह को वे घर कहते हैं, उसके बारे में उन्हें क्या पसंद है। साथ ही, यह सिटी के आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने का अवसर और लोकल तौर पर बदलाव के लिए प्रेरणा देता है। हम ब्रैम्पटन के निवासियों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस वर्ष के नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी कम्युनिटी में वृद्धि करने में शामिल हों।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम ऐसा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सुरक्षित, स्थिर और सफल हो और जिस पर हमारी विविध कम्युनिटी को घर कहने पर गर्व हो। हम नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम के द्वारा, इस वर्ष दुबारा हमारे निवासियों के साथ शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। हम उन निवासियों के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष इसमें हिस्सा लिया था।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca